

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**थाना-दीदारगंज**

**डी-71 गैग का सक्रीय सदस्य व 25 हजार का ईनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड में गोली लगने से घायल एक अदद तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल तथा एटीएम कार्ड बरामद**

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 07.11.2020 को थानाध्यक्ष दीदारगंज धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उ० नि० श्री अखिलेश चन्द्र पान्डेय व उ० श्री जावेद अख्तर व हे०का० मनोज यादव व का० वृजेश यादव द्वारा दीदारगंज चौराहे पर चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि उसी दौरान पुष्पनगर की तरफ से एक मोटर साइकिल (पल्सर) पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये। संदेह होने पर रूकने का इशारा करने पर अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर पुष्पनगर की तरफ भागने लगे जिसका पीछा थानाध्यक्ष दीदारगंज द्वारा करते हुए इसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक फूलपुर को दिया गया। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक फूलपुर श्री रत्नेश सिंह मय हमराह द्वारा भोरमऊ की तरफ से नहर पटरी पर चेकिंग करते हुए आ रहे थे कि जैसे ही मोटर सायकिल सवार महुवारा से आगे पुष्पनगर नहर पुलिया से भोरमऊ थाना फूलपुर की तरफ भागने लगे कि नहर पटरी के बाये मुर्गी फार्म के सामने पहुँचे कि सामने से प्रभारी निरीक्षक फूलपुर मय हमराह के सामने आ गये। पुलिस बल से अपने आप को घिरता देख दोनों व्यक्ति द्वारा अपने पार लिये असलहो से पुलिस पार्टी पर जाने की नियत से फायर करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा प्रशिक्षित तरिके से अपना बचाव करते हुए नियंत्रित आत्मरक्षार्थ फायरिंग में मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति के पैर में गोली लग गयी तथा मोटरसाइकिल चला रहा व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर भागने में सफल रहा। पुलिस बल द्वारा गोली लगे व्यक्ति को घेरकर समय 20.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम मुकेश गौतम पुत्र रामरूप गौतम निवासी ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया। मौके से एक अदद तमंचा देशी, 03 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर व एक अदद मोबाईल तथा तीन अदद एटीएम कार्ड व 600 रु नकद व एक अदद मो० सा० बजाज पल्सर CH01 AK 3804 बरामद हुआ। फरार व्यक्ति का नाम पुछने पर प्रवीण उर्फ मोनू पुत्र भुलई निवासी ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया। पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला, गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना दीदारगंज पर क्रमशः 1. मु०अ०सं० 183/20 धारा 307 भादवि 2. मु०अ०सं० 184/20 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्त द्वारा कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि करीब 05 माह पूर्व कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक्सिस बैंक से अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर, हम लोगो ने पैसा निकाला था। जिसके सम्बन्ध में जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभि० मुकेश कुमार उपरोक्त थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ के मु०अ०सं० 89/20 धारा 419/420/406 भा०द०वि० व 66 I.T Act में वांछित व 25000/- रुपये का इनामियाँ अभियुक्त है। पकड़े जाने के डर से मैंने आप लोगो के ऊपर गोली चला दी। एटीएम कार्डों तथा बरामद रुपयो के बारे में पूछने पर बताया कि दिनांक 09.09.2020 को मैं अपने साथी प्रवीण उर्फ मोनू के साथ परशुरामपुर बाजार थाना महाराजगंज, आजमगढ़ में लगे इण्डिया वन एटीएम से एक व्यक्ति का एटीएम कार्य बदलकर 40000/- रुपया निकाले थे। जिसको हम लोग आपस में बराबर बराबर बाट लिये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

मुकेश पुत्र रामरूप सा० भादो थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 183/20 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 184/20 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़  
आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुकेश पुत्र रामरुप
1. मु0अ0सं0 235/20 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 89/20 धारा 419,420,406 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना कप्तान गंज
3. मु0अ0सं0 124/19 धारा 419,420 भादवि थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 172/19 धारा 419,420 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 493/11 धारा 419,420 भादवि थाना जंगीपुरजनपद गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 183/20 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 184/20 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्त

प्रवीण उर्फ मोनू पुत्र भुलई सा0 भादो थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी

1. एक अदद देशी तमंचा, 03 अदद खोखा कारतुस तथा 1 अदद जिन्दा कारतुस .303 बोर
2. एक अदद मोबाईल
3. तीन अदद एटीएम कार्ड व 600 रु नकद
4. एक अदद मो0 सा0 बजाज पल्सर CH01 AK 3804

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रत्नेश सिंह मय हमराह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
3. उ0नि0 श्री अखिलेश चन्द्र पान्डेय थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
4. उ0नि0 श्रीजावेद अख्तर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

नोट- अभियुक्त मुकेश पुत्र रामरुप सा0 भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ एक नवीन गैग का सदस्य है । जिसका कोड डी -71 है । यह अभियुक्त 25 हजार रूपये का ईनामिया अभियुक्त भी है ।